



क्रम सं/SL No : 044156446



# पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार | The Patent Office, Government Of India

## पेटेंट प्रमाण पत्र | Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74) | (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 440001

आवेदन सं. / Application No. : 201841023355

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 22/06/2018

पेटेन्टी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT MADRAS)

आविष्कारकों का नाम / Name of Inventor(s) : 1. AMITAVA GHOSH 2. D. RAGHAVA SIMHAN 3. PRITHVIRAJ MUKHOPADHYAY

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेन्टी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित **HARD PARTICLES MIXED ACTIVE SILVER BASED FILLER MATERIALS FOR BRAZING CUBIC BORON NITRIDE (CBN) WITH METAL SUBSTRATES** नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख जून 2018 के बाईसवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled **HARD PARTICLES MIXED ACTIVE SILVER BASED FILLER MATERIALS FOR BRAZING CUBIC BORON NITRIDE (CBN) WITH METAL SUBSTRATES** as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 22<sup>nd</sup> day of June 2018 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



Controller of Patents

अनुदान की तारीख / Date of Grant : 21/07/2023

**टिप्पणी -** इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, जून 2020 के बाईसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।  
**Note -** The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 22<sup>nd</sup> day of June 2020 and on the same day in every year thereafter.